



# आपदाओं के लिए आपातकालीन पानी जमा करें



प्रत्येक व्यक्ति



प्रत्येक दिन

=



3 दिन के लिए

प्रत्येक 6 महीने



खाली करके भरें

इस्तेमाल न करें



पानी रखने के लिए



City of Seattle

Seattle  
Emergency Management

आपातकालीन प्रबंधन का सिएटल कार्यालय  
[www.seattle.gov/emergency](http://www.seattle.gov/emergency)  
206-233-5076

Seattle  
Public  
Utilities

# आपदाओं के लिए आपातकालीन पानी जमा करें

भूकंप जैसी आपदाएँ पानी की प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपको अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए कम से कम 3 दिन के लिए पर्याप्त पानी जमा करना चाहिए।

## पानी की आपातकालीन आपूर्ति को कैसे जमा किया जाए

यदि आप निम्नलिखित कदमों का अनुसरण करें, तो 2 लीटर की पॉप बोतलें पानी जमा करने के लिए बहुत अच्छी बोतलें होती हैं।

- ★ निश्चित करें कि बोतल साफ है। एक बोतल में लगभग 1/8 छोटे चम्मच ब्लीच और 2 कप पानी डालें। ढक्कन लगा दें और बोतल को धीरे से हिलाएँ। निश्चित करें कि आप ढक्कन के चारों ओर तथा बोतल का ऊपरी हिस्सा साफ करते हैं।
- ★ खाली करके बोतल को बिल्कुल ऊपर तक ताज़े पानी से भरें। ढक्कन को ऊपर से कस कर बंद कर दें और बोतल पर आपातकालीन पानी का लेबल लगा दें। लेबल पर वह तारीख लिखें जब आपने बोतल भरी है।
- ★ जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी जमा करें। आपके परिवार में प्रति व्यक्ति 2-लीटर की छह बोतलें जमा करने की सिफ़ारिश की जाती है।
- ★ हर 6 महीने पर बोतलों को खाली करके फिर से भरें। (जब आप वसंत में घड़ियों को बदलते हैं और पतझड़ का मौसम भी अपनी पानी की बोतलों को खाली रके फिर से भरने का अच्छा समय होता है।

चेतावनी: काँच की बोतलें (यह आसानी से टूट जाती हैं), प्लास्टिक के दूध वाले जग (इन्हें सील करना मुश्किल होता है और यह आसानी से टूट जाते हैं) या उन बोतलों को इस्तेमाल न करें जिनमें ब्लीच या अन्य विषैले रसायन होते हैं।

